

फसलों में चूहा प्रबंधन



- ❖ चूहे फसलों में 2 से 15 प्रतिशत नुकसान पहुँचाते हैं
- ❖ फसलों में 4 से 5 प्रजाति के चूहे नुकसान पहुँचाते हैं
- ❖ चूहा प्रबंधन की तकनीक अपना कर फसलों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है
- ❖ संस्थान द्वारा एक सरल व सुगम चूहा नियंत्रण विधि विकसित की गई है

चूहानाशी विष की अनुसंशित खुराक

- ❖ जिंक फॉसफाइड: 2.0 से 2.5 प्रतिशत चुगे में (10 से 15 ग्राम प्रति बिल)
- ❖ ब्रोमोडिओलोन बीसी (0.25 प्रतिशत): 0.005 प्रतिशत, चुगे में (10 से 15 ग्राम प्रति बिल)
- ❖ ब्रोमोडिओलोन (0.005 प्रतिशत) का बना बनाया चुगा (10 से 15 ग्राम प्रति बिल)
- ❖ एल्यूमिनीयम फॉसफाइड (6 प्रतिशत), बिल धूम्रकारक (12 ग्राम की एक टेबलेट प्रति बिल)

चुगा बनाने की विधि

जिंक फॉसफाइड चुगा

जिंक फॉसफाइड विष चुगे के प्रयोग से पहले चूहों के प्रलोभन हेतु सादा चुगा देना आवश्यक होता है।

- ❖ एक कि.ग्रा. सादा (प्रलोभन) चुगा: इसके लिए क्षेत्र विशेष के प्रमुख खाद्यान्न जैसे गेहूँ बाजरा, चावल, रागी, ज्वार आदि की 980 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम खाने का तेल, सरसों, मूँगफली, तिल नारियल आदि मिला कर चुपड़ लें।
- ❖ एक कि.ग्रा. विष चुगा: प्रलोभन चुगे में प्रयुक्त अनाज (960 ग्राम) में 20 ग्राम खाने का तेल चुपड़े। फिर उसमें 20–25 ग्राम विष पाउडर मिलाएं। इस प्रकार विष चुगा तैयार करें।

ब्रोमोडिओलोन का चुगा (प्रलोभन चुगा आवश्यक नहीं)

- ❖ इसके लिए 960 ग्राम अनाज में 20 ग्राम खाने का तेल चुपड़े। फिर उसमें 20 ग्राम सान्द्र ब्रोमोडियोलोन विष पाउडर (सीबी) मिलाएं।

चूहा नियंत्रण कार्यक्रम

पहले दिन: बिलों का सर्वेक्षण, उन्हें बंद करना, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था

दूसरे दिन: प्रलोभन चुगा बनाना तथा ताजे बिलों में डालना (10 से 20 ग्रा चुगा प्रति बिल)

तीसरे दिन: यदि संभव हो तो प्रभोलन चुगा पुनः डालना (10 से 20 ग्राम प्रति चुगा बिल)

चौथे दिन: जिंक फॉसफाइड विष चुगा ताजे बिलों में डालना (10 से 15 ग्राम चुगा प्रति बिल)। बचे हुए चुगे, प्रयोग में लाये गये पत्तों, लकड़ी आदि को जलाना अथवा नष्ट कर देना या जमीन में गहरा दबा देना।

पांचवें दिन: मरे चूहों को सूर्योदय से पूर्व एकत्रित करके गहरा दबाना।

आठ से दसवें दिन: पुनः सभी बिलों को बंद करना, खरपतवार को नष्ट करना एवं 10 से 15 ग्राम ब्रोमोडियोलोन (0.005 प्रतिशत) विष चुगा बचे हुए ताजे बिलों में डालना।

तत्पश्चात् 3 से 10 दिनों तक खेत के मृत चूहों को एकत्रित करके जमीन में गहरा दबाना।



भारतीय मरु जर्बिल



चुगा बनाना



बिलों में जहर का चुगा डालना



सफल नियंत्रण

योगदान: विपिन चौधरी

भारतीय केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

जोधपुर 342 003 (भारत)

www.cazri.res.in

काजरी फैक्टशीट: 2021



CAZRI[®]
Enhancing resilience of arid lands